

From,

Dinesh Gupta,
Registrar General,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Request-95

To,

The Principal Secretary,
Govt. of U.P.,
Appointment Sec.-4,
Lucknow.

No. 119141 /Admin A-1 Sec.,

dated: 7-10-09

Sub: Grant of three advance increments to post Graduate Selected Candidates of Nayaik Sewa in compliance of order dated 21.03.2002 of Hon'ble Supreme Court.

Sir,

With reference to Govt. Order no. 1363/II-4-2009-45(12)/91, T.C., dated 13.05.2009 on the above subject, I am directed to say that several Judicial Officers of the rank of ^{District Judge} Additional District Judge, Civil Judge (Senior Div.), Civil Judge (Junior Div.) and retired Judicial Officers who are possessing LL.M degree have represented to the Court for grant of three advance increments w.e.f 21.03.2002 in accordance with aforesaid Government Order. The said G.O. Dated 1305.2009 is not clear on the following points:-

JRM
order dated
17.9.09 of
Learned R.G.
is placed below.

may pay the
file before
learned R.G.
for signature
and issue of
the instant
draft letter.

Principals
03-10-09
03-10-09

1. Whether three advance increments are admissible to all the Judicial Officers (any cadre in service or retired) already possessing LL.M degree on 21.03.2002.
2. Whether three advance increments are admissible to those Judicial Officers also who acquire LL.M degree after 21.03.2002.
3. Whether three advance increments are admissible ^{to} only those Civil Judges (Jr.Div.) and officers of H.J.S (Direct recruit) who possessed LL.M degree at the time of selection to the service and who have mentioned this qualification in the application form submitted to the Public Service Commission/High Court, Allahabad.
4. Whether three advance increments are admissible to only those Civil Judges (Jr.Div.) and officers of H.J.S (Direct recruit) who possessed LL.M degree at the time of selection to the service as on 21.03.2002 or thereafter.

serving in

Registrar (B)

of appno. 5.
The file be laid
before Learned
Registrar General
for signature &
issuing the
instant letter?


Whether the officers so entitled three advance increments under Govt. Order no. 1363/II-4-2009-45(12)/91 T.C., dated 13.05.2009 may also be entitled of Dearness Allowance on the three increments.

I am, therefore, to request you kindly to move the Government to issue necessary clarification on the above point at an early date so that necessary steps for implementation of Government Order may be taken.

05/10/09
J. R. (M)

Reg. Gen.
may like to approve
and sign the draft
in
05/10/09

Apk + f
05/10/09

Yours Faithfully

Registrar General

369

04/07/09

Santlal
14-7-09

(438)

9558
Register No.
File No. IV/2867
Serial No. 210

18/8/09

16-7-09 31/8/09

21-7-09

प्रेषक,

रजनी सिंह,
सिविल जज सी. डि. &
गाजियाबाद

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद

Request-95

द्वारा:

माननीय जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद

विषय:

विधि में स्नातकोत्तर उपाधि धारक होने के आधार पर शासनादेश संख्या 1363/दो-4-2009-45 & 128/91 टी. सी. नियुक्ति अनुभाग-4, लखनऊ, दिनांक 13-5-2009 के अनुपालन में दिनांक 21-3-2002 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

J. R. (M.A.)

Registrar General
14-7-09

2176
S. O. Admr H/A

J. R. (M)
13-7-09

(5)

P.S to R.G.
uekls ekr

19 JUL 2009

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकित 21-3-2002 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के विधि में स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है। मैंने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 28-9-99 को ज्वरिन किया है तथा मेरे द्वारा वर्ष 1996 में "मास्टर आफ लॉज" की उपाधि प्राप्त की थी। उक्त सन्दर्भित शासनादेश की छायाप्रति तथा मेरी "विधि में स्नातकोत्तर की उपाधि" की प्रमाणित छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार मुझे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करवाने का कष्ट करे।
सादर।

रजनी सिंह
सिविल जज सी. डि. &
गाजियाबाद
18/8/09

दिनांक: 20-6-2009

Endorsement No. 2064/1 Dt. 20.6.09

Forwarded to: 210 Secy-Admr H/A

संलग्नक: 1- शासनादेश की छायाप्रति,
2- विधि में स्नातकोत्तर की उपाधि की प्रमाणित छायाप्रति।

20/6
District Judge
Gazipur

23-7-09

Request-95

संख्या-1363/अ-1-2009-45(12)/91टिनी

प्रेषक,

कुंवर फतेह बहादुर,
महानिबंधक,
शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

21 MAY 2009

नियुक्ति अनुमान-4 लखनऊ: दिनांक: 15 मई, 2009

विषय: प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूल कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ0 प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने की संज्ञा की।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 शेड्यूल आयोग का निर्णय संख्या-1 संस्तुति संख्या पिरा-8.48 में पेज-590 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

8.48 If selected candidates are having a higher qualification like post Graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the De. It is a well known fact that Post-Graduation in Law is a different course and it is better to reward appropriately such candidates.

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.3.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0 प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की श्री-उच्चतम न्यायालय महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0आ0-2-517/वस-2009, दिनांक 13.5.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निगत किया जा रहे हैं।

भयदोय,



(सहायक महानिबंधक)

उच्च न्यायालय

अनुक्रमांक 1550021
Roll No.

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ



विधि निष्णात
(Master of Laws)

प्रमाणित किया जाता है कि (कु.) राजनीसिंह ने इस विश्वविद्यालय से सन् १९९६ की परीक्षा में विधि निष्णात की उपाधि द्वितीय श्रेणी में प्राप्त की।

This is to certify that (Km.) Rajani Singh obtained the Degree of MASTER OF LAWS of this University in the Examination of 1996 and that he/she was placed in second Division.

Kailash

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY

Dated 20.05.1997

कुलपति
Vice-Chancellor

Written by / लेखक _____

Checked by : 1. _____
जांचकर्ता

2. _____

No.-97/ 5

प्रति हस्ताक्षरित

Request-95